



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1934 (श0)
(सं0 पटना 577) पटना, शुक्रवार, 19 अक्टूबर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

18 अक्टूबर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 5-03/2012/ खंड-2-9680—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9260 दिनांक 30.07.2012 द्वारा अन्य सहित रानीगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति, अररिया का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। रानीगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन कतिपय कारणों से प्राधिकार के पत्रांक-9443 दिनांक 28.08.2012 द्वारा स्थगित किया गया था।

इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में प्राधिकार द्वारा रानीगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति, अररिया के निर्वाचन हेतु शेष कार्यक्रम निम्न रूप से नियत किया जाता है :-

(i)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि / प्रतीक आवंटन	01.11.2012 (गुरुवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतदान, अगर आवश्यक हो	10.11.2012 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 2:00 बजे अपराह्न तक

(iii)	मतगणना	10.11.2012 (शनिवार) 3:00 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक
-------	--------	---

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 577-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>